



Corp. Off.:- 201, "The Summit Business Bay"
Behind Guru Nanak Petrol Pump,
Off Andheri Kurla Road, Andheri (E),
Mumbai - 400 093 (India)
Ph. : +91 22 69073100
7th August 2025

BSE Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai-400001

Scrip Code: **533543**

National Stock Exchange of India Ltd.

Exchange Plaza, C-1, Block G
Bandra Kurla Complex
Bandra (E), Mumbai-400051

Symbol: **BROOKS**

Subject: Newspaper advertisement for Special Window for re-lodgment of transfer requests of physical shares.

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith newspaper publications relating to "Special Window for Re-lodgment of Transfer Request of Physical Shares" as per SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated July 02,2025 as published in the following newspapers:

1. Financial Express (all edition) on 7th August , 2025
2. Jansatta, (Chandigarh edition) on 7th August , 2025

This is for your information and record.

Thanking You,

Yours faithfully

For **BROOKS LABORATORIES LIMITED**

Krutika Rane

Company Secretary and Compliance Officer

Membership no. 66310

Encl.: As Above

SBC EXPORTS LIMITED

CIN: L18100UP2011PLC043209

Regd. Off.: 9, Lohiya Talab, Chhoti Basahi P.O. Vindhyachal, Mirzapur, Uttar Pradesh, India, 231307
Tel: 0120-2895246, Email: info@sbcexportslimited.com, Website: www.sbcexportslimited.com

Statement of Unaudited Consolidated and Standalone Financial Results for the quarter ended June 30th, 2025

The Unaudited Consolidated and Standalone Financial Results for the quarter ended June 30th, 2025 (Financial Results) have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company in their respective meetings held on 05th August, 2025.
The full format of Financial Results is available on the website of Stock Exchanges at www.nseindia.com and www.bseindia.com and also on the Company's website at <https://www.sbcexportslimited.com/financial-results> and can be accessed by scanning the QR code.



Place: Sahibabad
Date: 05-08-2025

Govind ji Gupta
SD/-
Managing Director

THE SINGARENI COLLIERIES COMPANY LIMITED
(A Government Company)
Regd. Office: KOTHAGUDEM-507191, Telangana.

E-PROCUREMENT TENDER NOTICE
Tenders have been published for the following Services / Material Procurement through e-procurement platform. For details, please visit <https://tender.telanganagov.in> or <https://pcclines.com>

NT/Enquiry No. - Description / Subject - Bid Submission Closing Date & Time.
ENN2500018-Procurement of Desktop systems for use at Naini Coal Mine, Chhendipada, Angul, Odisha state of SCCL on specific make basis- 22.08.2025-05.00 PM. GM (Naini)

PR/2025/ADVT/Naini/771
DIPR R.O.No: 469-PPCL-AGENCY/ADVT/12025-26

PUBLIC NOTICE
General Public & Shareholders are hereby informed that the **OPTIVALEU TEK CONSULTING LIMITED**, CIN : U72200DL2011PLC221539 (formerly known as Optivalue Tek Consulting Private Limited) having its last Registered Office address Kharsa No. 2/2, 2/1, Chhatrapur Main Road, Southwest Delhi, New Delhi, Delhi, India 110072 has been shifted to its New Registered Office Address **607, 6th Floor, Surya Kiran Building, 19 KG Marg, Connaught Place, Central Delhi, New Delhi, 110001** w.e.f. 16th July 2025.
For any future correspondence, please contact us at the New Office Address Only.

Ashish Kumar Sd/-
Managing Director
DIN : 03511258
Date: 06/08/2025

Brooks LABORATORIES LIMITED
CIN No.: L24232HP2002PLC000267
Regd. Off & Works: Village Kishanpura, Baddi Nalagarh Road, Baddi (H.P.) - 174101
Corp. Off.: 201, "The Summit Business Bay", Behind Guru Nanak Petrol Pump, Off Andheri Kuria Road, Andheri (E), Mumbai - 400 083, Tele Fax: 01795 236939; E-mail: investors@brookslabs.net, Website: www.brookslabs.net

SPECIAL WINDOW FOR RE-LODGEEMENT OF TRANSFER REQUESTS OF PHYSICAL SHARES
Notice is hereby given that pursuant to SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated July 2, 2025, a Special Window has been opened for a period of 6 months commencing from July 7, 2025 to January 6, 2026 for re-lodgement of transfer deeds, which were originally lodged prior to the deadline of April 1, 2019 and rejected/returned due to deficiency in the documents or otherwise missed the extended timeline of March 31, 2021 for re-lodging their documents for transfer of securities.
Investors who have missed the aforementioned timeline for re-lodging their documents for transfer of securities are requested to furnish the necessary documents to the Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA) MUGF Intime India Private Limited [Formerly Link Intime India Private Limited] at their **email ID rtnt.helpdesk@in.mpmg.mugf.com** or at their office at C-101, Embassy 247, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai-400083 or the Company at **cs@brookslabs.net**.

During this period, the securities that are re-lodged for transfer (including those requests that are pending with the Company/ RTA as on date, if any) and being verified by the RTA shall be issued only in Demat Mode. Shareholders raising the request must have a demat account and shall provide their Client Master List, along with the original transfer documents and share certificate(s) while re-lodging the documents for transfer with the RTA.

Place: Baddi
Date: August 7, 2025

For Brooks Laboratories Limited
Sd/- Bhushan Singh Rana
DIN: 10289384

MOREPEN LABORATORIES LIMITED
CIN: L24231HP1984PLC006026
Regd. Off.: Morepen Village, Malkumajra, Nalagarh Road, Baddi, Distt. Solan (H.P.) -173205, India
Tel.: +91 1795 266401-03, 244590, Fax: +91 1795 244591
Corp. Off. : 2nd Floor, Tower C, DLF Cyber Park, Udyog Vihar-III, Sector-20, Gurgaon, Haryana-122016, India
Tel.: +91 124 4892000, E-mail: investors@morepen.com, Website: www.morepen.com

INFORMATION RELATING TO 40th ANNUAL GENERAL MEETING DIVIDEND AND RECORD DATE

Pursuant to the general circular no. 9/2024 dated 19th September, 2024, issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA') and circular no. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated 3rd October 2024 issued by Securities and Exchange Board of India ('SEBI') and other relevant circulars issued by MCA and SEBI (hereinafter collectively referred to as "the Circulars"), the companies are allowed to hold Annual General Meeting ('AGM') through Video Conferencing or Other Audio Visual Means ('VC/OAVM'), accordingly, the 40th AGM of the members of the Morepen Laboratories Limited ('the company') is scheduled to be held on Saturday, 6th September 2025 at 1.00 p.m., through VC/OAVM. The services of VC/OAVM will be provided by National Securities Depository Limited ('NSDL') at the said AGM, so as to allow the members to attend and participate in the AGM, in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder (the 'Act'), Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, ('Listing Regulations') and various guidelines, circulars issued by the MCA and SEBI, from time to time, to transact the businesses as set out in the notice of the AGM which will be circulated for convening the AGM, shortly.

Further, in compliance with the applicable provisions of the Act, circulars and Listing Regulations, the notice of the AGM along with explanatory statements and Annual Report for the financial year 2024-25, will be sent only through electronic mode to those members whose e-mail addresses are registered with the company/ Registrar & Share Transfer Agent ('RTA')/ Depositories as on Friday, 8th August 2025. The services of e-Voting will also be provided by NSDL. The requirement of sending hard copy of the Annual Report has been dispensed with unless member asked/ requested for the hard copy.

The members may note that the notice of the AGM along-with explanatory statements and Annual Report for the financial year 2024-25, will be available on the website of the company at www.morepen.com, websites of the Stock Exchanges i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at their respective websites viz., www.bseindia.com and www.nseindia.com. The aforesaid document will also be available on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com.

In compliance with Regulation 36(1)(b) of Listing Regulations a letter providing the weblink, including the exact path for accessing the Annual Report will be sent to those members who have not registered their email addresses with Company/RTA or Depositories.

The members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM, shall be reckoned for the purpose of ascertaining the quorum under Section 103 of the Act. The detailed instructions for attending the AGM through VC/OAVM and e-Voting will be given in the notice of the AGM.

Final Dividend and Record Date:

The Board of Directors at its meeting held on 12th May 2025 has recommended a final dividend of ₹0.20/- per equity share of the face value of ₹2/- each, for the financial year ended 31st March 2025. The record date for the purpose of final dividend is Saturday, 30th August 2025. The final dividend, once approved by the members at the AGM, will be paid subject to deduction of tax at source ('TDS'), within thirty (30) days to the members whose name appear in the register of members/list of as beneficial owner as on the record date through electronic mode.

To avoid delay in receiving final dividend, members are requested to update their KYC with their depository participant ('DP') (where shares are held in electronic/ demat mode) and with the RTA of the Company (where shares are held in physical mode) to receive final dividend directly into their Bank Account on the payout date.

TDS on Dividend:

Pursuant to the Finance Act, 2020, dividend income has become taxable in the hands of members with effect from 1st April 2020 and therefore, the Company is required to deduct TDS on dividend payments at applicable rates as prescribed under Income Tax Act, 1961.

To facilitate accurate TDS deduction, members are requested to submit the required documents/ declaration to the RTA by following the necessary instructions, as per communication will be sent on email to those members, whose email ids are registered with the company/ RTA and in physical form/ letter along-with requisite documents to those members, whose email id, has not recorded with the company/ depositories, on or before Wednesday, 3rd September 2025.

Update of KYC details for dividend processing of members holding shares in physical form:

SEBI vide its master circular no. SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2025/91 dated 23rd June 2025 has mandated that dividend to security holders (holding securities in physical form), shall be paid only through electronic mode. Such payment shall be made upon a folio being KYC compliant i.e., PAN, contact details including mobile no., bank account details and specimen signature are registered with the RTA/Company. In this regard the company has sent letters to its members for furnishing the required details, from time to time.

Manner of registration/ updation of e-mail addresses, Bank account and other KYC details:

The members whose e-mail id. is not registered/ updated with the company/ RTA/ depositories, please follow the below instructions for registration of email id. on or before Friday, 8th August 2025 till 3.30 p.m.:

Physical Holding	Send a request to RTA of the company i.e., MAS Services Limited at T-34, 2 nd Floor, Okhla Industrial Area Phase - II, New Delhi - 110 020 in duly filled Form ISR-1 along with other relevant forms and supporting documents, which can be downloaded from the website of the company at www.morepen.com under 'Investors' tab as well as RTA's website i.e., www.masserv.com under 'download' tab. You can also send the Form ISR-1 with digital signature to RTA's email id investor@masserv.com
Demat Holding	Please contact DP and register/update the details as per the manner prescribed by them.

The members are requested to read all the 'Notes' set out in the notice of the AGM, in particular, instructions for members to attend the AGM through VC/OAVM and cast their votes through remote e-voting and e-voting during the AGM.

Special window for re-lodgement of transfer requests of physical shares:

We would also like to draw your attention to SEBI circular SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated 2nd July 2025; the SEBI gives a last chance to clear out pending physical transfers form before April 2019. In the regard, 6 months' time window i.e., from 7th July 2025 to 6th January 2026 has been granted, in which any person can re-submit (re-lodge) physical transfer deeds that were originally lodged before 1st April 2019 but rejected, returned, or left unprocessed due to deficiencies and shares transferred during aforesaid window will be issued exclusively in dematerialized form, under the transfer-cum-demat process.

In case of any query or issue regarding attending the AGM through VC/OAVM or e-Voting, please contact to Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, NSDL, at evoting@nsdl.co.in/ 022 - 48867000 or to the RTA of the company, Mr. Deepanshu Rastogi, Assistant Manager, MAS Services Limited at investor@masserv.com/ 011-26387281/82/83, 011-41320335.

For Morepen Laboratories Limited
Sushil Suri
(Chairman & Managing Director)
DIN: 00012028
Date: 06th August, 2025
Place: Gurugram, Haryana

FORTIS HEALTHCARE LIMITED

(CIN: L85110PB1996PLC045933)

Regd. Office: Fortis Hospital, Sector 62, Phase – VIII, Mohali-160062
Tel : +91 172 5096001; Fax No : +91 172 5096221, Website: www.fortishealthcare.com; Email: secretarial@fortishealthcare.com

STATEMENT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2025

(₹ in Lakhs)

S. No.	PARTICULARS	CONSOLIDATED			
		Quarter Ended June 30, 2025	Quarter Ended March 31, 2025	Quarter Ended June 30, 2024	Year Ended March 31, 2025
		Un-Audited	Audited	Un-Audited	Audited
1	Total Income from Operations	2,18,212	2,02,700	1,87,191	7,84,969
2	Net Profit/ (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/ or Extraordinary items)	33,794	29,012	22,985	1,09,638
3	Net Profit/ (Loss) for the period before tax (after exceptional and/ or Extraordinary items)	35,057	23,655	23,005	1,00,704
4	Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after exceptional and/ or Extraordinary items)	26,678	18,802	17,398	80,938
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	26,633	18,498	17,365	80,586
6	Paid-up Equity Share Capital	75,496	75,496	75,496	75,496
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in audited balance sheet				8,16,156
8	Securities Premium Account	7,21,519	7,21,519	7,21,519	7,21,519
9	Net worth #	9,17,485	8,91,496	7,74,061	8,91,496
10	Paid up Debt Capital/ Outstanding Debt	2,35,481	2,19,531	86,576	2,19,531
11	Outstanding Redeemable Preference Shares	-	-	-	-
12	Debt Equity Ratio (in times)	0.28	0.27	0.14	0.27
13	Earnings Per Share (of Rs 10/- each) (for continuing and discontinued operations)				
	(a) Basic (in Rs.)	3.45	2.44	2.20	10.26
	(b) Diluted (in Rs.)	3.45	2.44	2.20	10.26
14	Capital Redemption Reserve	-	-	-	-
15	Debenture Redemption Reserve	-	-	-	-
16	Debt Service Coverage Ratio (in times)*	5.92	8.49	2.07	3.88
17	Interest Service Coverage Ratio (in times)*	7.32	6.81	10.10	9.04

(₹ in Lakhs)

S. No.	PARTICULARS	STANDALONE			
		Quarter Ended June 30, 2025	Quarter Ended March 31, 2025	Quarter Ended June 30, 2024	Year Ended March 31, 2025
		Un-Audited	Audited	Un-Audited	Audited
1	Total Income from Operations	47,304	41,346	36,883	1,64,444
2	Net Profit/ (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/ or Extraordinary items)	4,609	1,352	5,050	22,956
3	Net Profit/ (Loss) for the period before tax (after exceptional and/ or Extraordinary items)	6,297	(3,890)	5,050	11,442
4	Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after exceptional and/ or Extraordinary items)	5,188	(4,223)	2,683	6,379
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	5,149	(4,294)	2,683	6,234
6	Paid-up Equity Share Capital	75,496	75,496	75,496	75,496
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in audited balance sheet				8,31,904
8	Securities Premium Account	7,25,092	7,25,092	7,25,092	7,25,092
9	Net worth #	9,12,393	9,07,244	9,11,265	9,07,244
10	Paid up Debt Capital/ Outstanding Debt	1,92,836	1,77,859	26,463	1,77,859
11	Outstanding Redeemable Preference Shares	-	-	-	-
12	Debt Equity Ratio (in times)	0.23	0.22	0.06	0.22
13	Earnings Per Share (of Rs 10/- each) (for continuing and discontinued operations)				
	(a) Basic (in Rs.)	0.69	(0.56)	0.36	0.84
	(b) Diluted (in Rs.)	0.69	(0.56)	0.36	0.84
14	Capital Redemption Reserve	-	-	-	-
15	Debenture Redemption Reserve	-	-	-	-
16	Debt Service Coverage Ratio (in times)*	4.08	3.06	0.81	2.05
17	Interest Service Coverage Ratio (in times)*	2.47	1.85	5.54	4.07

* Not annualised, except for the year ended March 31, 2025

Net worth as defined in subsection (57) of section 2 of the Companies Act, 2013.

- The above is an extract of the detailed format of Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter ended June 30, 2025 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 and Regulation 52 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Standalone and Consolidated Results for the Quarter ended June 30, 2025 are available on the Website of the Stock Exchanges viz. www.nseindia.com and www.bseindia.com and that of the company at www.fortishealthcare.com.
- The impact on net profit/ loss, total comprehensive income or any other relevant financial item(s) due to change(s) in accounting policies shall be disclosed by means of a footnote.
- # - Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind-AS Rules / AS Rules, whichever is applicable.



Place: Gurugram
Date: August 6, 2025

Scan Me!

Fortis Healthcare Limited
For and on Behalf of Board of Directors

Sd/-
Dr. Ashutosh Raghuvanshi
Managing Director & CEO
DIN No. 02775637

पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़ में बरसे बादल

पहाड़ी क्षेत्र में बारिश से घग्गर का जलस्तर खतरे के निशान पर पहुंचा

चंडीगढ़, 6 अगस्त (ब्यूरो)।

पंजाब-हरियाणा व चंडीगढ़ के कई हिस्सों में बारिश होने से तापमान में कुछ गिरावट आई। वहीं, पहाड़ी क्षेत्र में बारिश की वजह से गंधार नदी का जलस्तर खतरों के निशान पर पहुंच गया। मौसम विज्ञान विभाग ने बुधवार को बताया कि पंजाब के गुरुदासपुर में बुधवार सुबह 8.30 बजे तक 24 घंटे की अवधि में 71.5 मिलीमीटर बारिश हुई। होशियारपुर, लुधियाना, मोहाली, पठानकोट, रूपनगर, फरीदकोट और पटियाला में भी बारिश हुई।

मौसम विभाग के मुताबिक, अमृतसर में न्यूनतम तापमान सामान्य से एक डिग्री कम 24.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मोहाली में न्यूनतम तापमान सामान्य से दो डिग्री कम 23.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ में 15.8 मिलीमीटर बारिश हुई और केंद्रशासित प्रदेश में न्यूनतम तापमान 23.7 मिलीमीटर दर्ज किया गया जो सामान्य से तीन डिग्री कम है।

हरियाणा के अंबाला, नारनौल, पंचकूला, कैथल और फरीदाबाद में बारिश हुई। हिसार में न्यूनतम तापमान सामान्य से दो डिग्री कम 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अंबाला में न्यूनतम तापमान सामान्य से एक डिग्री कम 24.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पंचकूला से निदा प्रशासन ने परामर्श जारी कर लोगों से नदियों, नालों और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने का आग्रह किया है। परामर्श में कहा गया है कि पहाड़ी क्षेत्र में रातभर हुई

हरियाणा में संविदा
कर्मियों की नौकरी
पक्की, सेवा सुरक्षा
कानून लागू

चंडीगढ़, 6 अगस्त (जनसत्ता)।

हरियाणा सरकार ने लाखों संविदा कर्मियों के लिए फैसला लेते हुए 'हरियाणा संविदा कर्मचारी (सेवा की सुरक्षा) अधिनियम, 2024' को प्रभावी रूप से लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत जिन संविदा कर्मचारियों ने न्यूनतम पांच वर्षों तक 240 दिनों की सेवा की शर्त पूरी की है, उन्हें सेवा सुरक्षा का कानूनी दर्जा मिलेगा।

मुख्य सचिव अनुराग स्तोगी द्वारा इस संबंध में जारी अधिसूचना के बारे में बुधवार को सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि किसी भी अनुबंधित कर्मचारियों को सुरक्षित कर्मचारियों का दर्जा प्राप्त करने के लिए 15 अगस्त, 2024 तक के तमाम से कम पांच वर्ष की सेवा पूरी करनी होगी, जिसमें से 30 प्रत्येक वर्ष में उसने न्यूनतम 240 कार्यवाहियों का वेतन प्राप्त किया होगा। उन्हें कर्मचारियों का ही वर्ग में उच्च और निम्न, दोनों पदों पर कार्यरत रहा है, तो भी सेवा गणना को जाणगी, बशर्त कि उसने 240 दिन का वेतन प्राप्त किया हो।

यदि किसी व्यक्ति ने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है, जिसका जीवनसाथी जीवित है या जिससे जीवित जीवनसाथी के होते हुए भी किसी व्यक्ति से विवाह किया है, तो वह अधिनियम के अंतर्गत सेवा सुरक्षा के लाभ के लिए पात्र नहीं होगा।

समूह-सी पदों की
न्यूनतम शैक्षणिक
योग्यता बारहवीं

चंडीगढ़, 6 अगस्त (जनसत्ता)।

हरियाणा सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वह समूह-सी पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बारहवीं करने के संबंध में 21 जुलाई, 2023 के आदेशों का सख्ती से पालन सनिश्चित करें।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा बुधवार को इस संबंध में प्रदेश के सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों-निगमों के मुख्य प्रशासकों व प्रबंध निदेशकों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों और विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों को एक पत्र जारी किया गया है।

ਪੰਜਾਬ/ਹਰਿਆਣਾ

राजधानी

मोरनी में भूस्खलन से प्रमुख मार्ग
बाधित, लोगों ने किया बहाल

पंचकूला, 6 अगस्त (जनसत्ता) ।



सड़क पर इतना नालियाँ और कोयले जमा हो चुका है कि वहाँ से पैदल चलना भी खतरा बन रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार सड़क पर कई फुट ऊँचा मलबा जमा हो चुका है और प्रशासन की ओर से अभी तक कोई जेसीबी या भारी मशीनरी मौके पर नहीं पहुँची है और प्रशासन की मदद का इंतजार किए बिना


री बारिश के कारण घग्गर नदी का जलस्तर तबूतरे के निशान के करीब पहुँच गया है। घाटों में लगातार हो रही बारिश और पंचकूला तबूतरे में भी जारी वर्षा के चलते घग्गर नदी तेज गति से बढ़ रही है। यह तेज गति के चलते अनेक क्षेत्रों में बाढ़ फैल गई है। घग्गर नदी के जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। घग्गर नदी ने अनेक क्षेत्रों में बाढ़ फैला दी है। घग्गर नदी ने बाढ़ फैला दी है। घग्गर नदी ने बाढ़ फैला दी है।

ग्रामीणों ने स्वयं फावड़े, तसले और अन्य उपकरणों से रास्ता साफ करने का प्रयास शुरू कर दिया है। मोरनी क्षेत्र के लोगों ने आपसी सहयोग से रास्ते को बहाल किया। भूस्खलन से प्रभावित इलाकों में मोरनी से बड़ी शेर की ओर जाने वाला मार्ग भी शामिल है।


है, जिससे आसपास के इलाकों में खतरे की स्थिति बन गई है।

जिला प्रशासन की ओर से घग्गर नदी के आसपास जाने और उसमें किसी भी प्रकार की गतिविधि करने पर प्रतिबंध लगाया गया है, आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

[illegible][illegible]



बैंक ऑफ बड़ोदा
Bank of Baroda



50
YEARS

**शाखा कार्यालय: सनोली रोड,
पानीपत-132103**

हिमांशु नोटिस

वितीय सम्पत्तियों के प्रिन्सिपलहरू व प्रिन्सिपलहरू वृद्ध प्रिन्सिपलहरू वृद्ध के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसके बाद **व्याज अधिनियम के और नोटिस**) की धारा 11(2) के अधिनियम नोटिस

उपरोक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत 60 दिनों की स्थिति के लिए प्रिन्सिपलहरू वृद्ध के बैंक के अधिकृत अधिकारी द्वारा उपरोक्त स्थानों के एनपीए के कारण व्याज गिरा और भीषण के व्याज को जमा करने के लिए दिनांक 29.07.2025 को नोटिस दिए गए थे। नोटिस के अनुसार यह व्याज प्रति 60 दिनों के भीतर जमा नहीं की जाती है, तो संपर्क अधिनियम 2002 के तहत कब्जा किया जाएगा। शाखा को उक्त अधिनियम के तहत अनुको भेजे गए प्रिन्सिपल लिटिगए गए उक्त नोटिसों की स्थिति प्रगति हुई है। अतः संपर्क अधिनियम नोटिस के मध्यम से सूचित किया जाता है कि शाखा की प्रति 60 दिनों के भीतर भीषण के व्याज और अन्य के साथ नहीं अनुप्राप्त के अनुसार जमा करे। इस नोटिस के प्रकाशन के 60 दिनों के बाद बैंक संपर्क अधिनियम की धारा 13(4) के तहत अपील को कार्यवाही करेगा।

उपकर्ताओं और गारंटी के नाम	नॉन परफॉर्मिंग एंटर (नपीएए) की तिथि
<p>श्री कमान दीवान (आवेक) श्रीमती अश्विनी रत्नली (सह-आवेक) कमान नं. 110 अंतर्गत टाउन सेंटर-36 कनवल हरियाना- 132001</p>	<p>28.02.2025</p>

अज्ञा स्वीकृत व्याज (रुपये में)

मुद्राभाषा का प्रकर यह प्रकृतित- साक्ष्य धारा (बयान कर वहां) (जहां संख्या 54320600000588), सीमा (रुपये में) : 26,00,000/- रुपये (केवल छब्बिस लाख रुपये), व्याज दर : 8.10% प्रति वर्ष मासिक व्याज स्थिति

नोटिस की तिथि और राशि

नोटिस दिनांक 29.07.2025, रु.19,55,049.72/- (रुपये उन्नीस लाख पचास हजार उनपचास और पैसे बहतर मात्र) (09-02-2025 तक के व्याज स्थिति) तथा 10.02.2025 से भुगतान की स्थिति के लिए एक लाख न किंचा गया व्याज और अन्य शुल्क।

हेडन संवीधियों का विवरण

प्राथम्यक वहां का संयोजन, निमाता: महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, मासिक: LUN370 AX7 L डीजल AT SWD 67 STR, बॉली रोड: C1EVRT WHITE, रैंज संख्या: ZTN4NH69887, वैरिस संख्या: TAME1E4ZT8NH613XU3A, पंजीकरण संख्या: AR-98-9-0012

कनवर्गों के ध्यान में लाया जाता है कि अधिनियम की धारा 13 को उप-धारा 1 के प्राधान्यता के अंतर्गत प्रिन्सिपल परिसर्विचों को मुक्त करवाते के लिए समर्थ उपकरण है।

तिथि: 29.07.2025

स्थान: पानीपत

मुख्य प्रबंधक, प्राधिकृत अधिकारी

पंजाब में पनीर और देसी घी में सबसे ज्यादा मिलावट : स्वास्थ्य मंत्री

चंडीगढ़, 6 अगस्त (ब्यूरो)।

पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह ने एकत्र किए गए नमूनों के परिणामों का हवाला देते हुए बुधवार को कहा कि पनीर और देसी घी में सबसे अधिक मिलावट पाई गई है।

एकत्र किए गए नमूनों के परिणामों का विवरण साझा करते हुए मंत्री ने कहा कि पनीर के 531 नमूनों में से 196 नमूने घटिया गुणवत्ता वाले पाए गए और 59 नमूने खाने के लिहाज से असुरक्षित थे। देसी घी के संबंध में मंत्री ने

कहा कि स्वास्थ्य अधिकारियों ने 222 नमूने लिए जिनमें से 20 घटिया गुणवत्ता के थे और 28 खास के लहानाज से असुरक्षित कैंसर।



उन्होंने लोगों को सलाह दी कि वे पनीर और देसी दही ज्ञात स्रोतों से खरीदें या दूध से बनने वाली इन उत्पादों को अपने घर पर ही बनाएं। मंत्री ने बताया कि पिछले पांच वर्षों में असुरक्षित उत्पाद, विशेष रूप से पनीर और देसी दही बनाने के लिए लगभग 145 लोगों को दोषी ठहराया गया और छह महीने कैद का सजा सुनाई गई।

रक्षाबंधन पर महिलाओं
को हरियाणा परिवहन की
बसों में निशुल्क यात्रा

चंडीगढ़, 6 अगस्त (जनसत्ता)।

हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि रक्षाबंधन के पर्व पर हरियाणा परिवहन विभाग की साधारण बसों में महिलाओं और बच्चों के लिए निशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाएगी। विज ने बताया कि राज्य सरकार ने रक्षाबंधन के दिन महिलाओं को उनके बच्चों के साथ राज्य सहित चंडीगढ़ व दिल्ली तक चलने वाली हरियाणा परिवहन विभाग की साधारण बसों में निशुल्क सफर की सुविधा देने का निर्णय लिया है।

[illegible]

<div>  </div>							
CIN: L26922HR1980PLC010901 Regd. Office: O.P. Jindal Marg, Hisar-152 005 (Haryana) Ph. No. (01662) 222471-83, Fax No. (01662) 220499, Email Id. for investors: investorcare@jindalstainless.com, Website: www.jindalstainless.com							
EXTRACTS OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30 JUNE 2025							
(₹ in crores except per share data)							
Sr. No.	Particulars	For the quarter ended			For the year ended		
		30 June 2025	31 March 2025	30 June 2024	31 March 2025		
		Unaudited	Audited (Refer Note 3)	Unaudited	Audited		
1	Total income from operations	10,207.14	10,198.32	9,429.76	39,312.21		
2	EBITDA *	1,309.80	1,060.88	1,211.72	4,666.63		
3	Net profit for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	969.05	735.81	885.94	3,346.02		
4	Net profit for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	969.05	728.75	885.94	3,338.96		
5	Net profit for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	714.66	589.96	646.07	2,499.72		
6	Total comprehensive income for the period [comprising profit for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	713.57	601.62	647.16	2,537.18		
7	Paid up equity share capital (face value of ₹2/- each)	164.73	164.73	164.69	164.73		
8	Other equity	17,249.22	16,523.21	14,842.75	16,523.21		
9	Securities premium account	4,120.10	4,119.73	4,102.26	4,119.73		
10	Net worth	17,413.95	16,887.94	15,007.44	16,687.94		
11	Paid up debt capital #	99.00	286.50	474.00	286.50		
12	Outstanding redeemable preference shares	-	-	-	-		
13	Debt equity ratio	0.35	0.38	0.43	0.38		
14	Earning per share (EPS) (face value of ₹2/- each)						
	a) Basic	8.67	7.18	7.87	30.42		
	b) Diluted (EPS for the quarter not annualised)	8.66	7.17	7.86	30.41		
15	Capital redemption reserve	20.00	20.00	20.00	20.00		
16	Debtenture redemption reserve #	-	-	-	-		
17	Debt service coverage ratio	2.94	2.18	5.27	3.26		
18	Interest service coverage ratio	9.57	7.71	8.85	8.11		
* EBITDA – Earnings before interest, tax, depreciation & amortization and other income # Listed debtenture							
Notes							
1. The above is an extract of the detailed format of quarterly/yearly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 and Regulation 52 read with Regulation 63 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI (LODR)"). The full format of the standalone and consolidated quarterly/yearly financial results along with other line items referred in Regulation 52(4) of the SEBI (LODR) are available on the Company's website (www.jindalstainless.com) and on the websites of Bombay Stock Exchange (www.bseindia.com) and the National Stock Exchange of India Ltd. (www.nseindia.com). The same can be accessed by scanning the QR Code provided below.							
2. Standalone financial information of the Company, pursuant to regulation 47(1)(b) of SEBI (LODR) :							
(₹ in crores)							
Particulars	For the quarter ended			For the year ended			
	30 June 2025	31 March 2025	30 June 2024	31 March 2025			
	Unaudited	Audited (Refer Note 3)	Unaudited	Audited			
Total income from operations	10,340.51	10,785.53	9,584.90	40,181.68			
EBITDA *	1,047.79	890.48	1,004.40	3,905.20			
Profit before tax (before exceptional items)	862.78	955.03	788.26	3,367.63			
Profit before tax (after exceptional items)	862.78	1,106.58	788.26	3,519.18			
Profit after tax	641.64	924.94	578.32	2,711.19			
3. The figures for the quarters ended 31 March 2025 are the balancing figures between audited figures in respect of full financial years and published year to date figures upto the third quarter of years ended 31 March 2025.							
<div> <div>By Order of the Board of Directors</div> <div>For Jindal Stainless Limited</div> <div>  </div> <div> Tarun Kumar Khulbe Chief Executive Officer, Chief Financial Officer and Whole Time Director </div> </div>							
Place: New Delhi Date: 06 August 2025							